

DHANVANTRI HOSPITAL

(A Unit of Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd.)

Number One, Saket, Meerut, 250003 (UP) INDIA Ph. 0121-2648151-52, 2651801

E-mail: dhanvantrihospital@gmail.com | Website: www.djrl.org.in

To,
The Listing Department,
BSE Limited,
P.J. Towers, Dalal Street,
Fort, Mumbai-400 001

Ref: Scrip Code: 531043

Sub: Newspaper Clipping of Publication of Notice of Board Meeting

Dear Sir

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of the Notice of Board Meeting published in Newspaper(s), Jansatta (Hindi Edition) and Financial Express (English Edition) on 6th August 2021.

A copy of Newspapers is enclosed for your reference.

This is for your information and record.

Thanking You,

For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited,

(BIKRAM SINGH)
Chief Financial Officer
PAN: AHSPS4761P

Place: Meerut Date: 06.08.2021



CIN: L27109UP1963PLC002931

Regd. Office: Advanced Manufacturing & Technology Centre, NH-25A. Sarai Shahjadi, Lucknow, Uttar Pradesh 227101, India Ph; +91522 7111017, Fax; +91522 7111020, Web; www.ptcil.com

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47(1) read with regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, meeting of the Board of Directors of PTC Industries Limited will be held on Friday, August 13, 2021 at 03:30 P.M through audio/video - conferencing facility to, inter-alia, consider and approve, the un-audited financial result for the quarter ended on June 30, 2021.

Further this information is also available on the website of the Company ie. www.ptcil.com and website of the Stock exchange ie. www.bseindia.com.

For PTC Industries Limited

Place: Lucknow Date: 05.08.2021

(Pragati Gupta Agarwal) Company Secretary & Compliance Officer

GRM OVERSEAS LIMITED Regd. Office- 128, First Floor, Shiva Market Pitampura Delhi 110034

CIN- L74899DL1995PLC064007 Tel No. 011-47330330 | Email: Investor.grm@gmail.com

Website: www.grmrice.com

NOTICE TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO THE DEMAT ACCOUNT

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companie Act, 2013 ('Act') read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time

OF INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ATHOURITY

Complying with the requirements of the Rules, the Equity Shares of the company in respect of which dividend had remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more as on the due date of transfer, required to be credited to Demat account of IEPF Authority

Accordingly the Company has communicated simultaneously all the concerned shareholders at their Registered address whose shares are now due to be transferred to the IEPF Authority, advising them to claim unpaid dividend(s) for the Financial year 2013-14 and onwards, Full details of such shareholders including their folio number or DP ID - Client ID are also made available on the website of the Company www.grmrice.com and Stock Exchange.

The Shareholder may please note that when the above equity shares would transferred into Demat account of IEPF Authority then such shares will not be available to shareholder for sale or transfer or dealt with in any manner except as per the process and provision as prescribed in the aforementioned rules of section 124(6) of the Companies Act, 2013

The shareholder may further note that, both the unclaimed dividend and corresponding shares including all benefits accruing on such shares, if any, Once transferred to Demat account of IEPF authority can be claimed back from IEPI Authority after following the procedure prescribed in the aforesaid rules.

The Concerned Shareholder are invited to claim unclaimed dividend for the FY 2013-14 and onwards by making an application to the company/RTA by Friday, 05 November, 2021, failing which their shares shall be transferred to Demat account of IEPF Authority For claiming unclaimed dividend or in case you need any information /clarification please write to company at investor.grm@gmail.com or to MAS Services Limited at INVESTOR@masserv.com Registrar and Share Transfer Agent of the Company

By Order of Board For GRM Overseas Limited Atul Garg Dated: 05.08.2021

Place: Delhi

Managing Director

SALE NOTICE FOR ASSETS OF HINDUSTAN PAPER CORPORATION LIMITED-In Liquidation (A Company under Liquidation vide Honble NCLT order dated 02nd May 2019) Registered Office of the Company: South Tower 4th Floor, Scope Minar Complex, Laxminagar

ublic Announcement for e-auction to be held on 27.08.2021 from 12:00 noon till 06 PM for sale of illowing assets of Hindustan Paper Corporation Limited-In Liquidation under Ins IS WHAT IS BASIS, WHATEVER THERE IS BASIS AND NO RECOURSE BASIS") THROUGH E-Auction service provider MSTC Limited. To participate & registration log on to www.mstcecommerce.com and for more detailed terms and conditions visit www.mstcinida.co.in.

Location	Address/Area	Lot	Reserve Price (INR)	EMD (INR)
1 Residential Flat in Guwahati (Refer Note 1)	Flat No.103, First Floor, Block No. A-15, National Games Village, National Highway No. 37, Borsaji, Mouja, Betola, District Kannup, Assam. Measuring Super-built up area 1,250 square feet.	Lot-1	0.42 crores	2.40 takhs
1 Residential Flat in Guwahati (Refer Note 1)	Flat No. 104, First Floor, Block No. A-15, National Games Village, National Highway No. 37, Borsaji, Mouja, Betola, District Kamrup, Assam. Measuring Super-built up area 1,250 square feet.	Lot-2	0.42 crores	2,40 faikhs
1 Residential Flat in Mumbai	Flat No. 301, 3rd Floor in Building No. 15(Aniket) of Prem Jyoti Housing Society Limited, Off Chembur Mankhurd Link Road, Chembur, District Mumbai-400043, Maharashtra Measuring Carpet Area 652 square feet	Lot-3	1.30 crores	6.50 lakhs
Housing Colony at Sattake, Kolkata (Leasehold Property)	Leasehold land along with construction Situated at HC BLOCK, Near Calculta Heart Clinic & Hospital, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata-700106. Land Area of Subject property-99.56 cottah.	Lot-4	58.50 crores	2.92 crores
Office at Delhi (Leasehold Property)	Scope Minar, 4th Floor, South Tower, Core-4, Lawminagar District Centre, Delhi- 110002, Measuring 547,64 square meter	Lot-5	8.25 crores	41.25 laikhs
Coal lying since long at Cachar Paper Mill (Quantity: 10,351.456 MT)	Cachar Paper Mill Panctigram Assam Pin – 788802	Lot-6	8,10 crores	40 lakhs
Unstaked Lime lying since long at Cachar Paper Mill (Quantity: 1,961,769 MT)	Cachar Paper Mil Panchgram Assam Pin – 788802	Lot-7	1.42 crores	7 lakhs
Limestone (lying since long) at Cachar Paper Mil (Quantity: 2,000 MT)	Cachar Paper Mil Panchgram Assam Pin – 788802	Lat-8	75.50 lakhs	3.50 faikhs
SSP (lying since long) at Cachar Paper Mill (Quantity: 2,090 MT)	Cachar Paper Mill Panchgram Assam Pin – 788802	Lot9	3,63 crores	18 lakhs
Maruti Suzuki Switt Dezire-LXI WB02AJ 8669, Petrol	HC BLOCK, Near Calcutta Heart Clinic & Hospital, IC Road, Sector-III, Salt Lake City, Kolkata, West Bengal-700106	Lot-10	3.00 lakhs	15,000
Car No.: AS-24 5775 Model: Chevrolet Tavera	Cachar Paper Mill Panchgram Assam Pin – 788802	Lot-11	4.00 lakhs	20,000
Car No. AS 01Z 7168 Model: Chevrolet Tavera, Diesel	Nagoan Paper Mil Jagi Road, Assam-782413	Lot-12	4.00 lakhs	20,000
1,13,62,231 Equity Shares of Rs. 100 each of Nagaland Paper & Pulp Company Limited	Nagaland Paper & Pulp Company Limited (CIN: U21012NL1971SGC001349) having its registered office at PAPER NAGAR , P.O TULI, DIST - MCKOKCHUNG NL798623	Lat-13	17.04 crores	85 lakhs

 There is only agreement to sale and the flat is not registered in the name of Hindustan Paper Corporation Limited. ast date for receipt of EOI is 20.08.2021. All EOIs are subject to Invitations uploaded on http://hindpaper.in. All communication to be addressed to kwerma@gmai.com/iquidation.hpcl@gmai.com

Liquidator of Hindustan Paper Corporation Limited IBBI Regn No-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016



Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is schedule to be held on Saturday, the 14th Day of August, 2021 at 01:00 p.m. at Meerut inter alia to consider and approve audited Financial Results of the

Company for the quarter ended 30th June 2021 pursuant to Regulation 33 of SEBI (LODR), 2015. The said notice may be accessed on the Company's website at http://www.djrl.org.in and may also be accessed on the Stock Exchange

website at http://www.bseindia.com. For Dhanvantri Jeevan Rekha Limited

Premjit Singh Kashyap (Chairman cum Director) Date: 06.08.2021

Place : Meerut

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED CIN: L74899DL1985PLC020194

Reg. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006 Email:amarnath01finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222

Website: www.sriamarnathfinance.in Addendum to the Notice of 36th Annual General Meeting

This is with reference to the Notice dated 19th July, 2021 sent to the Shareholders for convening

the 36th Annual General Meeting (AGM) of the company on Tuesday, 17th August, 2021 at 10 A.M. at A-73/1, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110052. The AGM Notice has already mailed and dispatched to the shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the companies Act, 2013 read with rules made thereunder the Act.

Subsequent to the issuance of the AGM Notice, the company has received the resignation from the M/s Vinod Vishal & Co. as statutory auditor of the company w.e.f. 05th August, 2021, to fill the casual vacancy the board of directors with the recommendation of audit committee has appointed M/s. Rajender Kumar Singal & Associates LLP (Chartered Accountants) as statutory auditor of the company subject to approval of shareholders till the conclusion of 36th Annual General Meeting of the company; as well as it is also proposed to appoint them as statutory auditors of the company for a term of five (5) consecutive years commencing from the conclusion of the said 36th Annual General meeting till the conclusion of the 41 Annual General Meeting (i.e. from FY 2021-22 to 2025-26)

Accordingly, the company has amended the notice of the 36th AGM by adding additional agendas as special business in Item No. 3 and Item No.4. In Addendum to Notice to 36th AGM the said addendum to notice to 36th AGM is also available on the company website www.sriamarnathfinance.in. This addendum to notice shall form an integral part of notice dated 19th July, 2021 circulated to the shareholders of the company.

The company shall take necessary action for updating the aforesaid Addendum to the AGM Notice on the website of NSDL and BSE Limited for their information and necessary action. Members and other stakeholders are requested to read the AGM Notice along with the All the processes, notes and instructions relating to e-voting set out for and applicable to the

ensuing 36th AGM shall mutatis-mutandis apply to the e-voting for the Resolutions proposed in this addendum to the Notice of 36th AGM, furthermore, the scrutinizers appointed for the ensuing 36th AGM will act as scrutinizers for the Resolution proposed in this Addendum to the Notice of 36th AGM.

This notice is also available on the Company website www.sriamarnathfinance.in and website of BSE Limited www.bseindia.com. For SRI AMARNATH FINANCE LIMITED

Date: 05.08.2021 Place: New Delhi

Rakesh Kapoor (Managing Director)

Sd/-

FORM A **PUBLIC ANNOUNCEMENT** (Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF

Ų.	RELEVANT PA	
1.	Name of corporate debtor	Funbars Hospitality Private Limited
2.	Date of incorporation of corporate debtor	18.02.2014
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, National Capital Territory of Delhi & Haryana under the Companies Act, 1956
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U55103DL2014PTC284977
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Regd. Office: A-95, S/F, Right Side, Gali No. 10, Chander Vihar, Mandawali Delhi East, Delhi-110092
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	03.08.2021(Order received by IRP through what's app on 05.08.2021)
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	29.01.2022 (180th day from the Insolvency Commencement Date)
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Harvinder Singh Registration Number: IBBI/IPA-001/IP- P00463/2017-18/10806
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	11-CSC, DDA Market, A Block Saraswal Vihar, New Delhi, National Capital Territory of Delhi, 110034 Email: harvinder@akgandassociates.com Funbars.cirp@gmail.com
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	11-CSC, DDA Market, A Block Saraswal Vihar, New Delhi, National Capital Territory of Delhi, 110034 Email: harvinder@akgandassociates.com Funbars.cirp@gmail.com
11.	Last date for submission of claims	19.08.2021
12.	clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	Name the class(es) – NA
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	1.NA 2.NA 3.NA
14.	a) Relevant Forms; and b) Details of authorized representatives are available at:	(a) Web link: http://ibbi.gov.in/downloadform.html Please refer Note 1 given below for applicable form(s) (b) Not Applicable

the Funbars Hospitality Private Limited on 03.08.2021. The Creditors of Funbars Hospitality Private Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 19.08.2021 to the Interim Resolution Professional at the address

The Financial Creditors shall submit their claims with proof by Electronic means only. Al other Creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. The submission of proof of claims should be made in accordance with Chapter IV of the

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The proof of claims is to be submitted by way of the following specified forms along with documentary proof in support of their claims: Form B: for claims by Operational Creditors (except Workmen and employees)

Form C: for Claims by Financial Creditors Form CA: for Claims by Financial Creditors in a Class

Form D: for Claims by a workmen and employee

Form E: for Claims by Authorized Representative of Workmen and Employees-Form F: for Claims by creditors other than financial creditors and operational creditors Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Kindly mention contact details in the claim form so that any query regarding claim can be resolved immediately.

(Reg. No IBBI/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806) Interim Resolution Professional in the matter of Funbars Hospitality Private Limited

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

Registered Address: 46 B.B Ganguly Street, 5th Floor, Unit No.-501, Kolkata-700012 Registered Email id: E: kuverma@gmail.com | Phone: +91 96360 77900 Date: 06.08.2021, Place: Kolkata

Punjab National Bank KDR Branch, Najibabad, Bijnor (UP)

Date: 06.08.2021

Place: Delhi

POSSESSION NOTICE [Under Rule 8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

The undersigned being the Authorised officer of the PUNJAB NATIONAL BANK, under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (Act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule-3 of the Security Interest

(Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice on the date mentioned against account and stated herein calling upon them to repay the amount within 60 days The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The borrower/gurantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any

dealings with the property will be subject to the charge of the PUNJAB NATIONAL BANK, for the amounts and interest thereon. The borrowers attentions is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the act, in respect of time available to redeem the secured asset, Details of properties where possession had been taken is as follows:

Sr. No.	Name of the Borrower/		Outstanding		
-	Guarantor/Mortgagor	rropeny silualeo al Adarsh Nagar, Village-Talarpur Laio, Najidabao, Bijnor, (OF),	Amount u/s		Possession
1.	Sh. Anil Kumar s/o Sh. Bharat Singh	Area 100.65 sq. mtrs. (In the name of Sh. Anil Kumar s/o Sh. Bharat Singh),	13(2)	Notice	
	Borrower/Mortgagor, Smt. Saraswati	Registered in Bahi No. 1, Zild No.: 7480, Pages: 157-178, Serial No. 16894, Dated	Rs. 22,69,228/-	02.01.2020	29.07.2021
W/O S	sh. Anii Kumar (Borrower) & Sh. Sunii				100

2. M/s Fareed Ahmad & Sons (Borrower), Sh. Fareed Ahmad s/o Sh. Mohd. Umar (Borrower/ Mortgagor), Sh. Mohd. Umar s/o Sh. Alladia (Guarantor/ Mortgagor), Smt. Salma Khatoon w/o Sh. Fareed Ahmad

(Guarantor/

(Guarantor)

Mortgagor) & Sh.

Satyajit Singh s/o Sh.

Upendra Nath Sinha

Singh (Borrower) & Smt.

Uma Devi w/o Sh

Dated: 03.08.2021

Pal s/o Sh. Phool Singh Pal (Guarantor)

1. Property Situated at Mohalla - Mugalshah, Near House of Taslim Ahmad (MLA) & Bazaar Chowk to Barat Talkies Road, Najibabad, Bijnor (UP), Area 82.40 sq. mtrs., (In the name of Sh. 81,62,619.77/- 12.01.2021 29.07.2021 Mohd. Umar s/o Sh. Alladiya), Bahi No: 1, Zild No.: 1569, Page: 211-240, Serial No.: 3701, Dated 19.06.2002, Bounded By: North: Abchak & House of Sh. Nasir Babu and Jamsheed Mistri, South: House of Sh. Ram Gopal, East: Abchak & House of Sh. Kalwa Singh, West: Road 2. Property Situated at Mohalla - Pathanpura, Najibabad, Bijnor (UP), Area 65.08 sq.mtrs., (In the name of Sh. Fareed Ahmad s/o Sh. Mohd

08.12.2015. Bounded: North: House of Girirai Ji, South: 12 Feet Wide Road, East: Plot of other, West: Plot Vendor

Umar), Registered in Bahi No.: 1, Zild No.: 4821, Pages: 01-24, Serial No.: 12644, Dated 08:12.2010, Bounded By: North: House of Legal heirs of Abdul Salam, South: House of Yaseen, East: House of Mukhtar and Abrar and Raasta 06 feet wide common, West: House of Mohd. Usman Property Situated at Mohalla- Darbarashah Nagar, Najibabad, Bijnor (UP), Area 14.62 sq.mtrs. (In the name of Sh. Fareed Ahmad s/o Sh. Mohd, Umar), Registered in Bahi No. 1, Zild No. : 4036, Pages: 395-428, Serial No. 2620, Dated 04.03.2009, Bounded By : North : Road, South : Property of Smt. Kaushalya Devi, East : Property of Smt. Kaushalya Devi, West : Property of Sh. Chavvani Lal

 Property Situated at Mohalla- Zabtaganj-I, Najibabad, Bijnor (UP), Area 92.93 sq. mtrs. (In the name of Smt. Salma Khatoon w/o Sh. Fareed Ahmed), Registered in Bahi No.: 1, Zild No: 5211, Pages: 43-66, Serial No.: 10773, Dated 08.09.2011., Bounded By : North : Rasta, South Roads Towards Ghisatpuri, East: Rasta, West: Rasta

3. Sh. Randhawa Property Situated at Mohalla - Katra Chetram, Near Shiv Mandir, MDKV Road, Najibabad, Bijnor-30,82,817.00/- 05.04.2021 29.07.2021 → Singh s/o Sh. Magan 246763, (UP), Area 73.85 sq. mtrs. (In the name of Smt. Uma Devi w/o Sh. Randhawa Singh), Registered in the Office of Sub-Registarar - Najibabad on 20.10.2008 at Serial No: 9860/08 (Construction on two parts), Bounded By: Part-1, North Randhawa Singh: House of Sh. Naim, South: Road/ House of Sh. Surendra Sharma, East: Part-II of Plot & Other House of Sh. Naim, West: House of Sh. Satendra

(Guarantor/Mortgagor) & Sh. Naim, Part-II: North: House of Sh. Naim, South: House of Sh. Surendra Sharma, East: House of Sh. Chavanni Lai, West: Part I of Plot Place: Najibabad Authorized Officer, Punjab National Bank

Website: www.maanaluminium.com, Email: info@maanaluminium.in



MAAN ALUMINIUM LIMITED Registered Office: 4/5, 1st Floor, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 CIN: L30007DL2003PLC214485 Phone: 011-40081800,

Extract of statement of financial results for the quarter ended June 30, 2021

(Rs. In lakhs except EPS)

			Quarter ended		Year Ended
Sr.	Particulars	June 30, 2021	March 31, 2021	June 30, 2020	March 31, 2021
No		(unaudited)	(Audited)	(unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations gross	12,070	16,327	4,993	40,288
2	Net Profit before exceptional items and tax	688	714	215	1,988
3	Net Profit for the period before tax	688	714	215	1,988
4	Net Profit for the period after tax	520	526	161	1,480
5	Total comprehensive income for the period	520	507	161	1,460
6	Equity share capital	676	676	676	676
7	Earnings Per Share of Rs. 10/- each	, ,			
NUSC	Basic & Diluted EPS	7.69	7.78	2.38	21.89
Not	96.				32 1

The above financial results for the guarter ended June 30, 2021 have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on August 05, 2021.

The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full financial results are available on www.bseindia.com, www.nseindia.com and www.maanaluminium.com.

For and on behalf of the Board

Place: New Delhi Date: August 05, 2021

(Ravinder Nath Jain) Chairman and Managing Director DIN: 00801000

MOONGIPA SECURITIES LTD (CIN: L74899DL1994PLC057941)

Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121 Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 (Amount Rs. in Lacs, except per share data)

S.	Grand Street State	Quarter Ended			Year Ended	
No.	p. Particulars	Particulars 30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (Net)	81.54	101.00	20.74	239.50	
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	63.87	71,74	9.43	165.07	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	63.87	71.74	9.43	165.07	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	52,75	66.22	10.51	157.92	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	52.75	66.22	10,51	157.92	
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs.10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	308.00	150.09	150.09	150.09	
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic b. Diluted	1.05 1.05	1.32 1.32	0.21 0.21	3.15 3.15	

The above standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 05" August, 2021.

The above is an extract of the detail format of the Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.moongipa.net).

For and on behalf of Board of Directors of MOONGIPA SECURITIES LTD. sd/-

Place: New Delhi Date: 05* August, 2021

Ruchi Jain (Whole Time Director) DIN: 07291623

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD (CIN: L65993DL1987PLC028669)

Regd. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121 Email: moongipac@gmail.com, Website: www.mongipa.com

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021 (Amount Rs. in Lacs, except per share data)

	ì	·	Occupation Product		Day on Parked	
S.	1000 W	Quarter Ended			Year Ended	
No.	Particulars 30.06.20	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
1	Total Income from Operations (Net)	36.76	47.09	26.90	126.76	
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and /or Extraordinary Items)	23.49	38.58	12.65	81.82	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	23.49	38.58	12.65	81.82	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	37.04	0.86	17.15	41.63	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	37.04	0.86	17.15	41.63	
6	Paid - up equity share capital (face value of Rs. 10/- each)	305.48	305.48	305.48	305.48	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	68.10	26.47	26.47	26.47	
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic b. Diluted	1.21 1.21	0.03 0.03	0.56 0.56	1.36 1.36	

NOTES:

The above standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 05th August, 2021.

The above is an extract of the detail format of the Standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2021, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.mongipa.com)

For and on Behalf of Board of Directors of MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD

Place: New Delhi Date: 05" August, 2021

Pooja Jain (Whole Time Director) DIN: 00097037



Date: 5th August, 2021

New Delhi

Place: Ahmedabad

N. K. Industries Limited Registered Office: 7th Floor, Popular House, Ashram Road Ahmedabad - 380 009. Work: 745, Kadi-Thor road, Kadi - 382 715 Dist. : Mehsana (North Gujarat) E-mail: nkil@nkproteins.com, Web: www.nkindustriesltd.com

CIN: L91110GJ1987PLC009905, Ph.: +91-79-6630 9999 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE NOTICE is hereby given that the 33th Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Wednesday.

he 01" September, 2021 at 02:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") ("AGM" / "th Meeting"), compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated 8th April, 2020, 13th April, 2020,5th May, 2020 and 13th January, 2021 respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA Circulars') and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020 read with circular no.SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/2021/11 dated 15th January, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI Circular'), without the physical presence of the Members at a common venue, to transact business mentioned in the notice of the meeting to be dispatched to the members of the Company within due course. Necessary notice will be sent to all the members of However, in accordance with the provisions of the Secretarial Standards on "General Meetings" (SS-2), the Company is

required to keep a place as the deemed venue for the 33" Annual General Meeting will be B-16, Privilon, Behind ISKCON Temple, Ambli-Bopal Road, Ahmedabad-380059.

The Annual Report along with the Notice of the 33" Annual General Meeting can also be accessed from the website of the Company: www.nkindustriesltd.com. Shareholders whose email ids are registered with the Company will be receiving the copy of Annual Report via email; The requirements of sending physical copy of the Notice of the 33st AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circular/s and SEBI Circular.

In case of Member(s) who have not registered their e-mail addresses with the Company / Depository are requested to get it registered by contacting their Depository Participant or by email to nkil@nkproteins.com for obtaining Annual Report and login Members can join and participate in the 33th AGM through VC/ OAVM facility only. The detailed instructions for joining

the 33rd AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the 33" AGM shall be provided in the Notice of the 33" AGM. Members participating through the VC/ OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the 33" AGM and the Annual Report will also be available on the website of the Company at www.nkindustriesltd.com website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and the AGM Notice is also available on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at www.evotingindia.com.

Your Company is pleased to provide e-voting facility to the members holding shares either in physical form or dematerialised form as on the cut-off date of 25° August, 2021 on the ordinary and special business, as set out in the Notice of the 33" AGM through electronic voting system ("remote e-voting") of National Securities Depository Limited ('NSDL'). The voting rights shall be as per the number of equity shares held by the members as on 25th August, 2021 (cut-off date). E-voting will commence on 29th August, 2021 at 9:00 a.m. and ends on 31th August, 2021 at 5:00 p.m. Members/Shareholders who all have not casted their votes during the e-voting period, can also cast their votes electronically during the meeting. The e-voting module shall be disabled by NDSL for voting thereafter. It may please be noted that the votes given by any member through e-voting facility shall be treated as final and binding and the shareholder will not be allowed to change it subsequently.

For detailed instructions pertaining to E-Voting, members may please refer Notes to the Notice of 33" AGM. In case of any queries or grievances pertaining to E-Voting procedure, shareholders may get in touch with Mr. Sandip Gohel, Company Secretary by writing to the Registered Office of the Company or via e-mail at cs@nkproteins.com or nkil@nkproteins.com as mentioned

Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of The Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members, Share Transfer Books and Register of Beneficial Owners of the Company will remain closed from Thursday, 26th August, 2021 to Wednesday, 01th September, 2021 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For, N. K. Industries Limited

By Order of the Board,

Hasmukhbhai Patel Whole Time Director (Din: 06587284)

financialexp.epap.in

HARYANA LEATHER CHEMICALS LTD.

Regd. Office: 72-77, HSIDC Industrial Estate, Hansi Road, Jind, Haryana. Corp. Office: 1405 B, Signature Towers,

South City -1, Gurgaon -122001, HR

Ph.: + 91 124 2739000

CIN: L74999HR1985PLC019905

NOTICE

ursuant to Regulation 29 read with Regulation 47

of the Securities and Exchange Board of India

(Listing Obligations and Regulations Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby

given that a meeting of the Board of Directors

of the Company will be held on Thursday, the

12" day of August, 2021 at corporate office of the

Company at 02.30 P.M. inter - alia, to consider and

take on record Un-audited Standalone Provisional

Financial Results for the quarter ended on

30.06.2021 and to consider the holding of 36'

Annual General meeting of the shareholders of

he Company and related matters thereto for the

The information contained in this notice is also

available on the website of the Company i.e.

www.leatherchem.com and the website of the

PUBLIC NOTICE

This is to inform the General Public that original Share Certificate No 01, Distinctive Numbers from 1 to 8000

nd Share Certificate no 03 Distinctive Numbers fron

10001 to 1402000 of Mr. Harish Chander Chowdhary member of Eppeltone Engineers Private Limited

Share Certificate No 02 Distinctive Numbers from 800

10000 of Mr. Amit Chowdhary a member of

ppellone Engineers Private Limited. Share Certificate

number 04 Distinctive Numbers from 1402001 to

2547000 and Share Certificate no 05 Distinctive

Numbers from 2547001 to 3986000 of Mr. Rohit Chowdhary a member of Eppeltone Engineers Private Limited, having Registered office address at A-57 Defence Colony, New Delhi DI -110024 have

risplaced their respective Share Certificates. The

above members of the company have applied for

fuplicate shares. The company hereby invites claim

and objections from claimants/objectors for issuance

of duplicate certificates within the period of 14 days

from the publication of this notice with copies of such

ocuments and other proofs in support of his/her/their

laims / objections for issuance of duplicate certificate

o the undersigned, Director of Eppeltone Engineers

rivate Limited. If no claims / objections are received

within the period prescribed above the Company shall

be free to issue duplicate Share Certificates in such

CORPORATE MERCHANT

BANKERS LIMITED

Regd. Off: UG-24, Vishwadeep Tower, District

Centre, Janak Puri, New Delhi-110058

CIN: L74899DL1994PLC061107

Email ID: cmbldelhi@gmail.com

Ph. No91-11-65382244

Website: www.cmbl.co.in

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation

47 read with Regulation 29 & Regulation 33 of

the SEBI (Listing Obligations & Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 that a

meeting of the Board of Directors of M/s

Corporate Merchant Bankers Limited will be

held on Friday 13th August 2021 at Regd Office

at 3.30 p.m., inter-alia to consider and

approve Un-Audited Financial Results of the

Company for the Financial Year and Quarter

Further details will be available on the website of

the Company i.e. at www.cmbl.co.in & also on

the website of BSE Limited & MSEI Limited i.e.

at http://www.bseindia.com, & www.msei.in

For Corporate Merchant Bankers Limited

DHAMPURE SPECIALITY

SUGARS LIMITED CIN: L24112UP1992PLC014478

Village Pallawala, Tehsil Dhampur District Bijnor (U.P.) - 246761 NOTICE Notice be and is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements Regulation, 2015 that the meeting of the Board of Directors of Dhampure Speciality Sugars Limited will be held on Saturday 14th day of August, 2021 at 2:00 P.M. at the Corporate office 24, School Lane Near World Trade Centre Delhi-110001, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Result (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2021 and to consider any other matter with the permission of Chair. This intimation is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the Company's shares are listed and on the website of the Company viz.

For Dhampure Speciality

Company Secretary &

Compliance Officer

Sugars Ltd.

Aneesh Jain

Parne Venkateshwar Reddy

Director

Din: 06446233

where the Company's shares are listed

ended 30° June 2021

Place: New Delh

Date: 05.08.2021

(www.sugarindia.com)

Place: New Delh

Date: 04th August, 2021

FORM NO. INC-25A

Advertisement to be published in the

newspaper for conversion of Public Company into Private Company

Before the Regional Director

Ministry of Corporate Affairs

Northern Region

In the matters of the Companies Act. 2013 section

14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the

Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND

in the matters of M/s Mansarovar Realtech

Limited (CIN: U45400DL2007PLC167379)

having Registered office at B-113, Chander

Notice is hereby given to the general public that

the company intending to make an application to

the Central Government under section 14 of

Companies Act, 2013 read with the aforesaid

rules and is desirous of converting into a private

limited company in terms of the special resolution

passed at the Extra Ordinary General Meeting

held on 15th July, 2021 to enable the company

Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change/status of the company

may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an

affidavit stating the nature of his interest and

grounds of opposition to the concerned Regional

Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor,

Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi

110003, within Fourteen days from the date of

publication of this notice with a copy to the

applicant company at its registered office at the

B-113, Chander Nagar, New Delhi-110058

R/ o : H. No. 1198, Sector-55, Ballabgarh.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

For and on behalf of the applicant

Faridabad, Haryana-121004

BHANU PRATAP

DIN: 03007491

MANSAROVAR REALTECH LIMITED

address mentioned below:

Place: New Delhi

Date: 05.08.2021

to give effect for such conversion.

Nagar, New Delhi-110058

Eppeltone Engineers Private Limited

For and on behalf of

Rohit Chowdhary

nanner as prescribed and provided under the law.

Date: 06-08-2021

Place: New Delhi

For Harvana Leather Chemicals Ltd.

SILU NANDA

Company Secretary

Stock Exchange i.e. www.bseindia.com

Dated: 05.08.2021

Place : Gurugram

Financial Year ended 31" March, 2021.

contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies,

associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

घाटे पर काबू पाने की जगह अधिक खर्च वाली नीतियों पर ध्यान दे केंद्र : बनर्जी

कोलकाता, ५ अगस्त (भाषा)।

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार को घाटे पर काब पाने की अधिक चिंता किए बिना युरोप और अमेरिका जैसी अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तरह अधिक खर्च वाली नीतियों पर ध्यान देना चाहिए।

बनर्जी पश्चिम बंगाल के वैश्विक सलाहकार बोर्ड (जीएबी) के प्रमुख हैं और राज्य सरकार को महामारी से संबंधित मुद्दों पर सलाह दे रहें हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, सीधे देश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार से संबंधित है, जो महामारी के कारण दबाव में है। बनर्जी ने केंद्र द्वारा पिछले साल समय-समय पर उपकरों में बढ़ोतरी के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, 'सरकार के सामने राजकोषीय समस्या है और उसे खुलकर खर्च करने वाली नीतियों की तुलना में बजट को संतुलित करने पर अधिक भरोसा हो सकता है। सरकार अपने पास मौजूद एक उपाए का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमे होने के चलते कर संग्रह की गति बरकरार नहीं रह सकी है। वह इसका इस्तेमाल बजट को संतुलित करने के लिए कर रही है।' उन्होंने आगे कहा कि लेकिन यह वह दिशा नहीं है, जो सरकार को नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि सरकार को अधिक खुलकर खर्च करना चाहिए। मैंने यह कई बार कहा है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार वह करने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका या यूरोपीय अर्थव्यवस्थाएं कर रही हैं- नोट छापना और खर्च करना। और मुझे लगता है कि वर्तमान संदर्भ में यह एक बेहतर नीति होती। बनर्जी ने केंद्र की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार अब इस दिशा में बढ़ रही है।

रुपए में चौथे दिन तेजी जारी, डॉलर के मुकाबले दो पैसे मजबूत

मुंबई, 5 अगस्त (भाषा)।

डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गुरुवार को भी तेजी जारी रही। अंतरबैंक विदेशीमुद्रा विनिमय बाजार में रुपया दो पैसे की मामूली तेजी के साथ 74.17 प्रति डॉलर पर बंद

बाजार सूत्रों ने कहा कि निवेशकों ने शुक्रवार को पेश होने वाली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा से पहले सतर्क रुख अपनाया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में सुबह रुपया 74.15 पर खुला तथा कारोबार के दौरान 74.28 रुपये के निम्नतम स्तर को छू गया। अंत में यह पिछले सत्र के बंद भाव के मुकाबले दो पैसे की तेजी के साथ 74.17 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। रुपए का यह बंद

स्तर, 21 जून के बाद का उच्च स्तर है। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 92.22 रह गया।

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED Registered Office: B-2/8 Safdarjung Enclave, New Delhi -110029 CIN-L74899DL1988PLC031191

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, 11" August, 2021 at 12:00 P.M. inter- alia, to consider and approve the unaudited financial results of the Company for

guarter ended on 30" June, 2021 The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.bagla-group.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited-www.bseindia.com. For Hindustan Adhesives Limited

01.00 बजे मेरठ में होगी।

दिनांक 06.08.2021

. कार्पीरेट देनदार का नाम

अक्षमता आरंभन की तिथि

नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर

हेतु प्रयुक्त पता और ई-मेल

11. दावा प्रस्तत करने हेत अन्तिम तिथि

उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत

अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियाँ, यदि कोई हो

में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता

।. (क) सम्बन्धित प्रपत्र और

किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप 1. अप्रयोज्य

प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम) 3. अप्रयोज्य

मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है।

अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में हरविन्दर सिंह

12. अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की वर्ग(गीं) का नाम - अप्रयोज्य

(ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर हेतु कृपया नीचे नोट 1 देखें।

स्थानः मेरठ

Date: 05.08.2021

M.S. Bagla Managing Director DIN-01425646 INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED Registered Office: Statesman House 148, Barakhamba Road, New Delhi 110001 CIN: L74899DL1993PLC053034 Website: www.internationalsecuritiesItd.com

lotice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing bligations and Disclosure Requirements egulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 13" August, 2021 at 11:00 A.M. inter-alia, to consider nd approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended on 30" June, 2021. The information contained in this notice is also available on the Company's website at www. iternationalsecurities ltd. com and the website of the Stock Exchange Metropolitan Stock Exchange of ndia Ltd - www.msei.in

For INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED

Place: New Delhi Date: 05.08.2021

वास्ते धनवंतरी जीवन रेखा लिए

प्रेमजीत सिंह कश्यप (अध्यक्ष सह निदेशक)

।, साकेत, मेरत–250 003 फोन: 0121–2648151–52, 2651801, फैक्स: 2651803

e-mail: dhanvantrihospital@gmail.com ; website: www.djrl.org.in

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों तथा प्रकटीकरण

आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के नियम 29 जिसे नियम 47 के साथ पढ़ा जाए, के

अनुपालन में कम्पनी के 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही अंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर

विचार करने व अनुमोदन हेतु कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक सेबी (एलओडीआर),

2015 के नियम 33 के अनुपालन में शनिवार, 14 अगस्त, 2021 को दोपहर

उपरोक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.djrl.org.in व स्टाक एक्सचेंज

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

फनबार्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

ससंगत विशिष्टियाँ

प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता 🛮 A-95, S/F, राइट साइड, गली नं. 10, चन्दर विहार, मंडावली

देल्ली. पर्वी दिल्ली-110092

ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के 29.01.2022 (ऋणशोधन अक्षमता प्रारम्भ होने की तिथिसे 180वाँ दिन)

कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का पंजीकरण संख्या IBBI/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806

o. अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल पता और ई- 11-सीएससी. डीडीए मार्केट, ए-ब्लॉक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय

Funbars.cirp@gmail.com

). अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार 11-सीएससी. डीडीए मार्केट, ए-ब्लॉक, सरस्वती विहार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय

जधानी क्षेत्र दिल्ली-110034

Funbars.cirp@gmail.com

19.08.2021

2 अपयोज्य

-मेल : harvinder@akgandassociates.com

ई-मेल : harvinder@akgandassociates.com

अ) वेब लिंक : http://ibbi.gov.in/downloadform.html प्रयोज्य प्रपत्रों

राजधानी क्षेत्र दिल्ली-110034

फनबार्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

शोध 03.08.2021 (आईआरपी से आदेश ह्वाटसएप के माध्यम से 05.08.2021 क

की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

RAJEEV KUMAR GUPTA दिनांक: 05 अगस्त, 2021 Whole Time Director स्थानः नई दिल्ली धनवंतरी जीवन रेखा लि०



दिन शामिला तक बंद कर दी गई है।

HDFC Credila Financial Services Limited Regd. Office: B-301, Citi Point. Andheri-Kurla Road, Andheri (East), Mumbai 400 059

(CIN: U67190MH2006PLC159411)

बोर्ड के आदेश से

बलवीर सिंह

(कंपनी सचिव)

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के लिए

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to all our customers and the general public that our branch office at Unit No. 403 & Unit No. 404, 4" Floor, Copia Corporate Suites, Plot No. 09, Jasola District Centre, New Delhi -110 025 shall be closed w.e.f 12/09/2021. We shall be operating from our new branch office being Unit No. 4-A/1 & Unit No. 4-A/2, in Commercial Complex 'Plaza M-6', on 4" floor, Plot No. 6, in Hierarchical Commercial Centre at Jasola, New Delhi- 110 025, to cater to your education loan needs.

For any queries, please write to us at support@hdfccredila.com.

For and on behalf of **HDFC Credila Financial Services Limited** (Formerly known as HDFC Credita Financial Services Private Limited)

Arijit Sanyal Managing Director & CEO

Date: 6" August 2021

Place: New Delhi

सूचकांक 123 अक चढ़कर उच्चतम स्तर पर बद

मुंबई, 5 अगस्त (भाषा)।

शेयर बाजारों में गुरुवार को लगातार चौथे दिन तेजी रही और बीएसई सूचकांक 123.07 अंक की मजबूती के साथ नए रेकार्ड स्तर पर बंद हुआ। निवेशकों के आईटी, दूरसंचार और दैनिक उपयोग का सामान (एफएमसीजी) बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में लिवाली से बाजार चढ़ा। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी और विदेशी पुंजी प्रवाह से बाजार धारणा को बल मिला।

तीस शेयरों पर आधारित सूचकांक कारोबार के दौरान 54,717.24 अंक के अब तक के उच्चतम स्तर तक चला गया था। लेकिन अंत में यह 123.07 अंक यानी 0.23 फीसद की बढ़त के साथ

54,492.84 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35.80 अंक यानी 0.22 फीसद मजबूत होकर नए रेकार्ड स्तर 16,294.60 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 16,349.45 के उच्चतम स्तर तक चला गया

सूचकांक के शेयरों में 4.30 फीसद की तेजी के साथ सर्वाधिक लाभ में भारती एयरटेल का शेयर रहा। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.41 फीसद की मजबृत आई। इसका कारण निवेशकों ने कुमार मंगलम बिड़ला के कर्ज में फंसी वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन पद से हटने के बाद संभावित दो कंपनियों वाले दुरसंचार बाजार पर दांव लगाया।

नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा)।

सुजित नहीं कर पाएंगे।

जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि जिन

करदाताओं ने जून, 2021 तक दो महीने या

जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल

नहीं किए हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल

अगस्त में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) संग्रह

बढ़ाने में मदद मिलेगी, क्योंकि लंबित जीएसटी

रिटर्न दाखिल होने की उम्मीद है। पिछले साल

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

(सीबीआइसी) ने कोविड महामारी के दौरान

विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से

आइटीसी, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, एचसीएल टेक और एचडीएफसी बैंक में भी 3.14 फीसद तक की तेजी आई। दूसरी तरफ, गिरावट वाले शेयरों में भारतीय स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, आइसीआइसीआइ बैंक, बजाज फिनसर्व और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं। इनमें 3.33 फीसद तक की गिरावट आई।

रिजर्व बैंक शुक्रवार को द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करेगा। ऐसी संभावना है कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति दबाव को देखते हुए नीतिगत दर के मामले में यथास्थिति बनाए रख सकता है। क्षेत्रवार बीएसई दूरसंचार, धातु, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और आइटी शेयर 3.39 फीसद तक चढ़े जबिक रियल्टी, बैंक और वित्तीय सूचकांक नुकसान में

रिटर्न नहीं भरने वाले 15 अगस्त से ई-वे

बिल सृजित नहीं कर पाएंगे : जीएसटीएन

अनुपालन राहत देते हुए रिटर्न दाखिल न करने

वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ई-वे बिल सुजित

जीएसटीएन ने करदाताओं से कहा,

'सरकार ने अब सभी करदाताओं के लिए

ईडब्लूबी पोर्टल पर ईवे बिल सृजित करने पर

रोक को 15 अगस्त से फिर बहाल करने का

फैसला किया है।' इस तरह 15 अगस्त. 2021

के बाद सिस्टम दाखिल किए गए रिटर्न की

जांच करेगा और जरूरी होने पर ईवे बिल

एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ

सुजित करने पर रोक लगाएगा।

करने पर रोक को निलंबित कर दिया था।

रहे। मझोली कंपनियों से जुड़ा सूचकांक 0.10 फीसद चढ़ा जबिक छोटी कंपनियों का सूचकांक 0.43 फीसद नीचे आया।

एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग और सियोल नुकसान में रहे जबिक टोक्यो में तेजी रही। यूरोप के प्रमुख बाजारों में मध्याह्न कारोबार में सकारात्मक रुख रहा। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.72 फीसद की बढ़त के साथ 70.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे चढ़कर 74.17 पर बंद हुआ। शेयर बाजारों में उपलब्ध आंकड़े के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशक पूंजी बाजार में बुधवार को शुद्ध लिवाल रहे। उन्होंने 2,828.57 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदे।

ने जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले सभी

लोगों पर दबाव बढा दिया है और ई-वे बिल

के सुजन पर रोक से कई व्यवसाय ठप हो

जाएंगे। मोहन ने कहा कि इस स्वचालित

दंडात्मक कार्रवाई से अगस्त में कर संग्रह

बढेगा। नेक्सडाइम के कार्यकारी निदेशक

(अप्रत्यक्ष कर) साकेत पटवारी ने कहा कि

हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं, कर

प्रशासन व्यवसायों से जीएसटी अनुपालन को

नियमित करने का आग्रह कर रहा है। उन्होंने

कहा कि रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वे

बिल सुजन को दोबारा शुरू करना आसान

'पीएफआरडीए', 'एनपीएस' ट्रस्ट अलग होने को तैयार

नई दिल्ली, 5 अगस्त (भाषा)।

पीएफआरडीए और एनपीएस ट्रस्ट अपने प्रस्तावित अलगाव के लिए तैयार हैं और उन्होंने अलग होने के बाद अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया है।

शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अंतिम फैसले के लिए संसद द्वारा पीएफआरडीए कानून में संशोधन का इंतजार है। उम्मीद है कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र में कानून में संशोधन का विधेयक पारित हो सकता है। पेंशन कोष नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अध्यक्ष सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने बताया कि अलगाव के लिए पीएफआरडीए अधिनियम में संशोधन जरूरी है। उन्होंने कहा, 'हमने अब तक ट्रस्ट को लोगों की भर्ती करने की अनुमित दी है। उन्होंने लगभग 14-15 लोगों की भर्ती की है और अगले कुछ महीनों में वे पांच और लोगों की भर्ती करेंगे। इस तरह कुल कर्मचारियों की संख्या 20 हो जाएगी।' उन्होंने कहा, 'हम अलग होने के लिए तैयार हैं, और साथ ही हमने तय किया है कि उनके (एनपीएस ट्रस्ट) द्वारा विशेष रूप से कौन से काम किए जाने हैं और पीएफआरडीए किन चीजों पर ध्यान देगा।' पहले एनपीएस ट्रस्ट, पीएफआरडीए भवन में स्थित था, लेकिन अब उसे दूसरी इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया है। बंद्योपाध्याय ने कहा कि उन्हें कुछ महीने पहले एक नया सीईओ मिला है और वह अलगाव से संबंधित कार्य की निगरानी कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्राहकों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने की घोषणा की थी। ट्रस्ट की स्थापना पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत संपत्ति और कोष के रखरखाव के लिए की थी। दोनों को अलग करने का प्रस्ताव पिछले कुछ वर्ष से विचाराधीन है।

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1995PLC064007

पंजीकृत कार्यालय: 128, पहली मंजिल, शिवा मार्केट पीतमपुरा उत्तरी दिल्ली-110034

वेबसाइट: www.grmrice.com | ईमेल आईडी: grmrice1@gmail.com

दरभाष नं: 011-47330330 | फैक्स नंबर: 011-(0180 - 2653673)

सार्वजनिक सचना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के

विनियम 29(1)(ए) के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में, एतद्ववारा सूचना दी जाती है कि कंपनी के

निदेशक मंडल की बैठक गरुवार 12 अगस्त 2021 को दोपहर 03: 30 बजे आयोजित करने के लिए निर्धारित

कंपनी के इक्रिटी शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश की घोषणा पर विचार और अनुमोदन करना।

इसके अलावा, जैसा कि हमारे पत्र दिनांक-30 जुन, 2021 के द्वारा पहले सुचित किया गया था, सेबी (इनसाइडर

टेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के अनुसार आचार संहिता के साथ पठित, कंपनी की टेडिंग विंडों, इनसाइडर्स

ट्रेडिंग को विनियमित करने, मॉनिटर करने और रिपोर्ट करने के लिए कंपनी द्वारा , सभी नामित व्यक्तियों और

उनके रिश्तेदारों के लिए 01.07.2021 से बोर्ड की बैठक के समापन के 48 घंटे तक यानी 14.08.2021 (दोनों

उक्त सूचना कंपनी की वेबसाइट http://www.grmrice.com पर देखी जा सकती है और स्टॉक एक्सवेंज

30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अनअंकेश्वित स्टेंडअलोन और कंसोलिडेटेड वित्तीय

की गई है जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवसाय पर चर्चा की जाएगी

की वेबसाइट http://www.bseindia.com पर भी देखी जा सकती है।

परिणामों पर विचार और अनुमोदन करना।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम 🥯

बागवानी विभाग (मुख्यालय) ई ब्लॉक, तीसरा तल, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर जवाहर लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002 निविदा आमंत्रण सूचना

डीडीएच (मुख्यालय) द्वारा एनआईटी सं डीडीएच/(एचक्यू)/एसडीएमसी/2021-22/602/एनआईटी सं 5 दिनांक 05.08.2021 में जारी निविदा सं 2021_एसडीएमसी_ 84143_1 के अनुसार अनुभवी एवं वित्तीय रूप से सुदृढ़ पात्र फर्म / ठेकेदारों से एकल चरण-दो बोली पद्धति में ऑनलाइन खुली निविदाएं ऑमंत्रित की जाती हैं। निविदा लागत रु. 1000 / -प्रत्येक, अनुमानित राशि रु. 6.00 लाख। डाउनलोड तथा बोली जमा करने की तिथि 06.08.2021 से 09.08.2021 को अप. 03.00 बजे तक। तकनीकी बोली का खुलना 10.08.2021 को अप. 03.30 बजे। स्वयं को पंजीकृत कराने के बाद (यदि ई—टेंडरिंग के लिए पहले से पंजीकृत नहीं है) विस्तृत नियम एवं शर्तों के साथ निविदा दस्तायेज वेबसाइट https://etenders.gov.in/eprocure/app से डाउनलोड किए जा सकते हैं या एसडीएमसी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in/SDMCPortal/ Tenders/CPP-ETENDERS, देखें। ऑनलाइन टेंडर के लिए हेल्पडेरक नं. है. 011-23227413 और 011-23227414 या ई-मेल करें : MCD-ITHELPDESK@mcd.nic.in इन निविदाओं के सभी विवरण, संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, समय विस्तार आदि, यदि कोई हुआ, केवल एसडीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इच्छक बोलीदाता इन निविदाओं के संबंध में ख्वयं को अद्यतन रखने के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें। उप निदेशक (बागवानी) मुख्यालय

RO No. 35/S/DPI/2021-22

011-23225334

SRI AMARNATH FINANCE LIMITED CIN: L74899DL1985PLC020194

Reg. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006 Email:amarnath01finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222 Website: www.sriamarnathfinance.in

Addendum to the Notice of 36th Annual General Meeting

This is with reference to the Notice dated 19th July, 2021 sent to the Shareholders for convening the 36th Annual General Meeting (AGM) of the company on Tuesday, 17th August, 2021 at 10 A.M. at A-73/1, G.T. Karnal Road, Industrial Area, Delhi-110052. The AGM Notice has already mailed and dispatched to the shareholders of the Company in due compliance with the provisions of the companies Act, 2013 read with rules made thereunder the Act.

Subsequent to the issuance of the AGM Notice, the company has received the resignation from the M/s Vinod Vishal & Co. as statutory auditor of the company w.e.f. 05th August, 2021, to fill the casual vacancy the board of directors with the recommendation of audit committee has appointed M/s. Rajender Kumar Singal & Associates LLP (Chartered Accountants) as statutory auditor of the company subject to approval of shareholders till the conclusion of 36th Annual General Meeting of the company; as well as it is also proposed to appoint them as statutory auditors of the company for a term of five (5) consecutive years commencing from the conclusion of the said 36th Annual General meeting till the conclusion of the 41 Annual General Meeting (i.e. from FY 2021-22 to 2025-26)

Accordingly, the company has amended the notice of the 36th AGM by adding additional agendas as special business in Item No. 3 and Item No. 4. In Addendum to Notice to 36th AGM the said addendum to notice to 36th AGM is also available on the company website www.sriamarnathfinance.in. This addendum to notice shall form an integral part of notice dated 19th July, 2021 circulated to the shareholders of the company.

The company shall take necessary action for updating the aforesaid Addendum to the AGM Notice on the website of NSDL and BSE Limited for their information and necessary action. Members and other stakeholders are requested to read the AGM Notice along with the

All the processes, notes and instructions relating to e-voting set out for and applicable to the ensuing 36th AGM shall mutatis-mutandis apply to the e-voting for the Resolutions proposed in this addendum to the Notice of 36th AGM, furthermore, the scrutinizers appointed for the ensuing 36th AGM will act as scrutinizers for the Resolution proposed in this Addendum to

This notice is also available on the Company website www.sriamarnathfinance.in and website of BSE Limited www.bseindia.com.

For **SRI AMARNATH FINANCE LIMITED**

Rakesh Kapoor

(Managing Director)

Place: New Delhi

Date: 05.08.2021

Read. Office: 18/14, W.E.A., Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi-110005 Phone no.: 011-41450121

STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2021

S.		Quarter Ended			Year Ended	
No.	Particulars	30.06.2021	31.03.2021	30.06.2020	31.03.2021	
N.Lenn	MATTERSON POSCO	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	
4	Total Income from Operations (Net)	81.54	101.00	20.74	239.50	
2	Net Profit/Loss for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	63.87	71.74	9.43	165.07	
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	63.87	71.74	9.43	165.07	
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	52.75	66.22	10.51	157.92	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	52.75	66.22	10.51	157.92	
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs.10/- each)	501.02	501.02	501.02	501.02	
7	Reserve (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited balance sheet of the previous year)	308.00	150.09	150.09	150.09	
8	Earning Per Share (EPS) (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) a. Basic	1.05	1.32	0.21	3.15	

b. Diluted

Place: New Delhi

Date: 05" August, 2021

1 The above standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 05th August, 2021.

with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulation 2015. The complete format of the above Financial Result is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and company's website (www.moongipa.net).

MOONGIPA SECURITIES LTD.

भागीदार रजत मोहन ने कहा कि जीएसटीएन फेडरल बैंक द फेडरल बैंक लिमिटेड आपका सर्वोत्तम बैंकिंग साझेदार ई-48, हौज खास, नई दिल्ली-110016

> स्वर्ण की निजी बिक्री की सूचना भा सम्बान्धता का एतद्वारा सूचना दा जाता है कि बंक का निम्नालाखत शाखाओं के तहत निम्नालाखत स्वण त्र खातों में बंधक स्वर्ण आभूषण, जो विमोचित करने के लिए अतिशोध्य हैं और बार-बार सूचनाओं के बावजूद अब तक नियमित नहीं किये हैं, निम्नानुसार 21.08.2021 को या इसके पश्चात शाखा में बिक्री हेतु रखे जायेंगे : 1) एम कन्नन शाखा/स्थान

> 19806100012409 फेडरल बैंक, ई-48, 19806100012581 हौज खास, नई दिल्ली 4) गुरकीरत कौर स्थान : नई दिल्ली, तिथि : 05.08.202

पंजीकृत कार्यालय- 128, प्रथम तल, शिवा मार्केट पीतमपुरा दिल्ली 110034 सीआईएन- L74899DL1995PLC064007 द्वरभाष नं. 011-47330330 | ईमेल: Investor.grm@gmail.com वेबसाइट: www.grmrice.com

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) प्राधिकरण की डीमैट खाता में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का अंतरण यह सूचना निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली

2016, समय-समय पर यथा- संशोधित ("नियमावली") के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम "") की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुपालन में प्रकाशित की जा है। नियमावली की अपेक्षाओं के अनुपालन में कम्पनी की ऐसी इक्रिटी शेयरों जिसके संदर्भ में अंतरण की नियत तिथि को लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लाभाश अप्रदत्त अथवा दावा-रहित रहा है, को आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाता में क्रेडिट किया जाना है।

तदनसार, कम्पनी ने ऐसे सभी संबंधित शेयरधारकों जिनके शेयरों को अब आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित किया जाना नियत है, को वित्त वर्ष 2013-14 तथा बाद के अप्रदत्त लाभांश (शों) का दावा करने का उन्हें परामर्श देते हुए उनके पंजीकृत पते पर उन्हें सूचित कर दिया है। उनकी फोलियो संख्या अथवा डीपी आईडी- क्लाइन्ट आईडी सहित ऐसे शेयरधारकों का सम्पूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाईट

www.grmrice.com तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। शेयरधारक कृपया ध्यान रखें कि जब उपरोक्त इक्रिटी शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित की जायेगी तो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के ऊपर वर्णित नियमावली में यथा-निर्दिष्ट तथा प्रावधान को किसी भी रूप में ऐसे शेयर बिक्री अथवा अंतरण अथवा व्यवसाय के लिये शेयरधारकों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में एक बार अंतरित कर दी गई दोनों दावा- रहित लाभांश तथा ऐसी शेयरों पर उपचिवत सभी लाभों सहित तत्स्थानीय शेयरों को उपरोक्त नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त किया जा

संबंधित शेयरधारकों को आमंत्रित किया जाता है कि शुक्रवार, 05 नवम्बर, 2021 तक संबंधित कम्पनी/ आरटीए के पास आवेदन कर वित्त वर्ष 2013-14 तथा आगे के लिये दावा-रहित लाभांश का दावा प्रस्तुत करें जिसमें विफल रहने पर उनकी शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में अंतरित कर दिया जायेगा। दावा-रहित लाभांश का दावा करने अथवा यदि आपको किसी सूचना/ स्पष्टीकरण की आवश्यकता

हो तो कृपया, investor.grm@gmail.com पर कम्पनी अथवा INVESTOR@masserv.com पर एम ए एस सर्विस लिमिटेड, कंपनी के रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट को लिखें। बोर्ड के आदेश से

जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड के हस्ता./-अतल गर्ग

दिनांक: 05.08.2021

हाटा कैपिटल फाइनेशियल सविसेस लिमिटेड TATA पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजिनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400013

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

[प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार] जबकि अधोहस्ताक्षरी प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण (इसके पश्चात ''कथित अधिनियम'' सन्दर्भित) के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते नीचे उल्लिखित के अनुसार कर्जदारों से माँग सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भगतान करने के लिए कहते हुए एक नीचे उल्लिखित के अनुसार माँग सूचना निर्गत की।

ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण विशेष रूप से निम्नलिखित ऋणकर्ताओं तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा

व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन–देन नीचे सन्दर्भित राशि कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अभियोग का विषय होगा।

तथा उस पर ब्याज और मांग सचनाओं की तिथि से दण्डात्मक ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए टाटा दायित्वधारी(यों)/विधिक माँग सूचना की राशि | कब्जा करने की तिथि सं. सं. उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के तथा तिथि

		नाम	
1.	6051120	गौरव शर्मा, फ्लैट नं. 366, पॉकेट डीजी-III. प्रथम तल, श्रेणी एमआईजी, विकास पुरी,	03-08-2021
		दिल्ली-110018, साथ ही : 16, प्रथम तल स्कूल लेन, बंगाली मार्केट, दिल्ली-110001 2. पूजा गाखर, फ्लैट नं. 366, पॉकेट डीजी-	कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक)
		III, प्रथम तल, श्रेणी एमआईजी, विकास पुरी, दिल्ली-110018	सांकेतिक
n	∏, प्रथम तल,	/अचल सम्पत्तियों का विवरण : फ्रीहोल्ड फ्लैट र श्रेणी एम.आई.जी., विकासपुरा, नई दिल्ली में स्थि र्मा के पक्ष में क्रियान्वित।	

2.	6092190	1. संजीव कुमार जैन	₹. 47,05,624/-	03-08-2021
,000	3.792-300	 मोनिका जैन दोनों निवासी : मकान नं. 125, गली नं. 15, वेस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर, दिल्ली-110051 	तथा 14.05.2021	कब्जे का प्रकार (सांकेतिक∕भौतिक) सांकेतिक
प्रा	तेभत आस्तियों.	/अचल सम्पत्तियों का विवरण : सम्पत्ति नं. 125 (भाग) प्लॉट नं. 5. माप	क्षेत्रफल 45 वर्ग गज. खसरा

नं. 174, 175, में से, मुस्तैल नं. 572/177, आबादी गली नं. 15, वेस्ट आजाद नगर, ग्राम घोंडली क्षेत्र, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 में स्थित। विक्रय विलेख दिनांक 13.03.2013 के अनुसार, मोनिका जैन के पक्ष में। सीमाएँ : पूर्व सड़क, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण: अन्य की सम्पत्ति।

3. 21189967	1. चन्द्र प्रकाश बजाज उर्फ चन्दर बजाज, 2. सुदेश बजाज, दोनों निवासी जीबी-30, शिवाजी एन्कलेव, टैगोर गार्डन, दिल्ली-110027 तथा 3. मैसर्स सुभाष ब्रदर्स, इसके पार्टनर के माध्यम से, 2606, नई सड़क, दिल्ली-110006	22.05.2021	04.08.2021 कब्जे का प्रकार (सांकेतिक/भौतिक
-------------	--	------------	--

प्रतिभृत आस्तियों⁄अचल सम्पत्तियों का विवरण : बिल्ट अप सम्पत्ति नं. 2622-2626, माप 125 वर्ग गज, गली बट्टूमल रोशनपुरा, नई सड़क, दिल्ली-110006 में स्थित। उपहार विलेख दिनांक 04.10.2012 में अधिक स्पष्ट वर्णित, चन्दर बजाज के पक्ष में क्रियान्वित। सीमाएँ : पूर्व : गली, पश्चिम : अन्य की सम्पत्ति, उत्तर : प्लॉट का भाग, दक्षिण : चेर की तिथि : 05.08.2021 स्थान : दिल्ली

अधिकृत प्राधिकारी टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

www.readwhere.com

तिथि : 06.08.2021

स्थान : दिल्ली

का आदेश दिया है। फनबार्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्वारा अपने दावों का प्रमाण 19.08.2021 को अथवा इससे पूर्व

अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के समक्ष वर्णित पते पर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है।

एतद्वारा सचना दी जाती है कि माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ (कोर्ट II) ने फनबार्स

हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दिनांक 03.08.2021 को कॉर्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरम्भ करने

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण दस्ती (व्यक्तिगत रूप से), डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। दावों के प्रमाण भारतीय ऋणशोध अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋणशोध समाधान प्रक्रिया) के

अध्याय IV के अनसार प्रस्तत किये जाने हैं। दावों के प्रमाण निम्नलिखित निर्दिष्ट प्रपत्रों द्वारा जमा किये जाने हैं :

प्रपत्र ख : कामगारों तथा कर्मचारियों को छोडकर प्रचालनात्मक क्रेडिटरों द्वारा दावों के लिए प्रपत्र ग : वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए

प्रपत्र गक : किसी वर्ग के वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए (रियल एस्टेट परियोजना के तहत) प्रपत्र घ : कामगारों तथा कर्मचारियों द्वारा दावों के लिए प्रपत्र ङ : कामगारों तथा कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दावों के लिए प्रपत्र च : वित्तीय लेनदारों तथा प्रचालनात्मक लेनदारों के अतिरिक्त लेनदारों द्वारा दावों के लिए

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दण्डनीय होगी। कृपया दावा प्रपत्र में सम्पर्क विवरण का उल्लेख करें तािक दावे से सम्बन्धित किसी पृछताछ का तत्काल समाधान किया जा सके। हरविन्दर सिंह

> (पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00463/2017-18/10806) फनबार्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में अन्तरिम समाधान प्रोफेशनल

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी होने वाला विज्ञापन क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष कॉरपोरेट कार्व मंत्रालय उत्तरी क्षेत्र

प्रकष संख्या. आईएनसी-25ए

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामलें में

मैसर्स मानसरोवर रियलटेक लिमिटेड (CIN: U45400DL2007PLC167379) जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-113, चंदर नगर, नई दिल्ली-110058 में हैं के मामलें में, आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी उपरांक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित करने के लिए केन्द्र सरकार को आवेदन करने की इच्छ्क है और ऐसे परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी ने 15 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण जाम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन / स्थिति से प्रभावित होने की संभावना हों, तो वह अपने हित के प्रभाव से संबंधित आशय एवं आपति की पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए एक शपथपत्र के साथ अपनी जापत्ति या पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निर्देशक के पते बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 के पास इस सुबना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के नीचे बर्णित पंजीकृत कार्यालय में भी मंजी जानी वाहिए:

बी-113, चंदर नगर, नई दिल्ली- 110058 कर्त और आवेदक की ओर से मानसरोवर रिवलटेक लिमिटेड मानु प्रताय निदेशक स्थानः नई दिल्ली विधि: 05.08.2021 DIN: 03007491

निवासीः मकान न0. 1198, सेक्टर-58,

बल्लमगढ़, फरीदाबाद, हरिवाणा-121004

MOONGIPA SECURITIES LTD

Email: moongipas@gmail.com, Website: www.moongipa.net

(Amount Rs. in Lacs, except per share data)

2 The above is an extract of the detail format of the Standalone Unaudited Financial Results for the guarter ended June 30, 2021, filed

For and on behalf of Board of Directors of

Ruchi Jain (Whole Time Director)

1.32

1.05

DIN: 07291623

0.21

3.15